



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 फाल्गुन 1934 (श०)
(सं० पटना 189) पटना, मंगलवार, 5 मार्च 2013

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

1 मार्च 2013

सं० नि० प्रा०/नि० 1-05/2012 खंड-251—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा [परिशिष्ट-1](#) में उल्लिखित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों, जिनके निर्वाचन 31.03.2013 तक देय हैं, का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

और, चूँकि प्रत्येक प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में 1 (एक) अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी समिति के 12 (बारह) सदस्यों का निर्वाचन कराया जाना है, जिसमें से 2 (दो) स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटि के सदस्यों के लिए, 2 (दो) स्थान महिलाओं के लिए, 1 (एक) स्थान पिछड़ा वर्ग कोटि के सदस्यों के लिए एवं 1 (एक) स्थान अति पिछड़ा वर्ग कोटि सदस्यों के लिए आरक्षित है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा [परिशिष्ट-2](#) में अंकित कार्यक्रम के अनुसार [परिशिष्ट-1](#) में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों के अध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 07.04.2013 (रविवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने-अपने प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें।

संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 08.03.2013 (शुक्रवार) को संलग्न प्रपत्र-1 (**परिशिष्ट-3**) में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात् प्रत्येक दुग्ध उत्पादक समिति में कितने पदों के लिए निर्वाचन कराने की आवश्यकता हो रही है, इसका विस्तृत विवरण संबंधित दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक द्वारा तैयार कर प्राधिकार को 30.03.2013 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक होगा। मतगणना दिनांक 07.04.2013 (रविवार) को मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार अपराह्न 3-4 बजे से शुरू की जायेगी।

आदेश से,

एन० एस० माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 189-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>